

प्रेस विज्ञप्ति

## जामिया में स्टार्ट-अप फाउन्डर्स एंड इन्वेस्टर्स मीट

सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप (सीआईई) के तहत एक स्टूडेंट बॉडी 'एंटरप्रेन्योरशिप सेल', जामिया मिल्लिया इस्लामिया (ई-सेल जेएमआई), विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के अवसर पर 29 अक्टूबर को स्टार्ट-अप फाउन्डर्स एंड इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन करेगा।

विश्वविद्यालय और उसके आसपास स्टार्टअप और इनोवेशन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टर्स मीट आयोजित की जा रही है।

तीन सफल कंपनी फाउन्डर्स, इस फाउन्डर्स मीट के मुख्य अतिथि के रूप में कैम्पस विज़िट करेंगे, जोकि कैम्पस के अन्य इन्वेस्टर्स, फाउन्डर्स और जमीनी स्तर के व्यवसायियों को सीखने, फलने-फूलने, विकसित करने और उनकी सभी समस्याओं के समाधान को खोजने का एक मंच स्थान प्रदान करेंगे।

फाउंडर्स टॉक्स के साथ-साथ इस इवेंट में पॉड डिस्कशन्स, हाई नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज और क्लेश्वन एंड आंसर सीरीज भी शामिल होंगे। इस फाउंडर्स मीट के लिए पंजीकरण फॉर्म ई-सेल जेएमआई के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर उपलब्ध है।

यह 29 अक्टूबर 2022 को दोपहर 2 बजे CIE को-वर्किंग स्पेस में शुरू होगा। छात्र संचालित ओर्गेनाइज़ेशन के रूप में यह छात्रों की एक पहल होगी। कई कॉलेज स्तर के स्टार्टअप, आइडिया और फाउंडर्स हैं जिन्हें आवश्यक कॉर्पोरेट एक्सपोजर के साथ-साथ उचित सलाह की दरकार है।

ई-सेल जेएमआई छात्रों को अपने व्यावसायिक आइडियाज़ पर काम करने का मौका देना चाहता है और नवाचार को बढ़ावा देने और छात्रों को महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट एक्सपोजर देने के लिए कैम्पस में एक स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाते हुए अपने एंटरप्रेन्योरशिप कौशल को बेहतर बनाना चाहता है।

इन्वेस्टर्स मीट के संबंध में सभी अपडेट ई-सेल के हमारे आधिकारिक हैंडल पर उपलब्ध हैं:

जनसंपर्क कार्यालय  
जामिया मिल्लिया इस्लामिया